



सामुदायिक समाचार अपडेट

2020 में Moorebank Logistics Park से नए किराएदारों ने संचालन करना शुरू किया है, और उन्होंने इन Kalmar गैन्ट्री क्रेनों को इंस्टॉल करके हमारे रेल टर्मिनल को स्वचालित करने की ओर प्रगति जारी रखी है।

Moorebank Logistics Park की ओर से शुभकामनाएँ

इस बहुत चुनौतिपूर्ण वर्ष की समाप्ति पर, हम अपने आसपड़ोस के सभी समुदायों को एक सुरक्षित और खुशियों से भरे अवकाश के समय की शुभकामनाएँ देते हैं।

जबकि कई उद्योग और ज़िन्दगियाँ बाधित हुई हैं, Moorebank Logistics Park खुशकिस्मत है कि यह अपने संचालन कार्य जारी रख पाया है और सैंकड़ों नौकरियों तथा स्थानीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण तौर पर निरंतर निवेश का समर्थन करने के लिए निर्माण-कार्य से सम्बन्धित गतिविधियाँ जारी रख पाया है। अब तक परियोजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार, Qube और उसके कांटेक्टर्स ने संपूर्ण परियोजना निवेश का 28% खर्च Liverpool, Campbelltown, Fairfield तथा Canterbury Bankstown काउंसिल क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बड़े और छोटे व्यापारों के साथ किया है।

और अधिक गोदाम संबंधी काम पूरे करने, नए व्यापारों को स्थल पर संचालन करना शुरू करते देखने के लिए महत्वपूर्ण तौर पर प्रगति की गई है, और मौजूदा Moorebank Avenue के साथ-साथ सड़क को अपग्रेड करने का काम भी शुरू हो गया है।

हम परियोजना द्वारा वित्त-पोषण किए जाने वाले सड़क कार्यों का समन्वय करने और NSW की सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई M5 Motorway अपग्रेड परियोजना के लिए Transport for NSW के साथ भी काम कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान कई प्रशिक्षण और शैक्षिक प्रस्ताव भी शुरू किए गए हैं। सबसे हाल ही में Qube ने रसद उद्योग में नौकरियों के अवसर दर्शाने तथा स्थानीय विद्यार्थियों को उपलब्ध कोर्स की खोजबीन करने तथा रसद उद्योग पर एक करियर मार्ग के तौर पर विचार करने के लिए प्रेरित करने हेतु TAFE के साथ सहभागिता की है (पिछले पृष्ठ पर लेख देखें)।

हम 2021 में हमारे सभी आसपड़ोस के स्थानीय समुदायों के साथ काम करना जारी रखने के लिए तत्पर हैं।

2020 में हमारी प्रगति जिसे चित्रों में दर्शाया गया है



हमारे कंट्रैक्टर BMD ने पूरे 2020 के दौरान बढ़िया प्रगति की है जिसमें Moorebank Avenue के अपग्रेड की तैयारी करना, और सड़क के पश्चिमी ओर अस्थायी मोड़ का निर्माण करना शामिल है।



2020 में Moorebank Precinct East पर दो नए गोदाम बनाए गए हैं, और तीसरा निर्माण के अंतिम चरणों में है। नए किराएदार अब स्थल से संचालन कर रहे हैं, और Target भी यहाँ से संचालन करता है, जो Moorebank Logistics Park पर सबसे पहला किराएदार था।



हमारे पंजीकृत एबोरिजनल पक्ष दो क्षतिग्रस्त पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के कार्य की निगरानी करने के लिए नवम्बर में स्थान पर मौजूद थे, और Tharawal Land Council ने इन टुकड़ों का स्वामित्व लिया था।



2020 में Moorebank Precinct West पर हमारे कार्य का महत्वपूर्ण अंश Woolworths के दो नए वितरण केन्द्रों की तैयारी करना है, जो भविष्य के अंतर-राज्यीय रेल टर्मिनल के सामने हमारे स्थल के केन्द्र के महत्वपूर्ण भाग को शामिल करेगा।



Qube ने Green Light Day 2020 के माध्यम से माल भाड़ा और रसद उद्योग के करियर में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को परिज्ञान प्रदान किया।

Green Light Day भविष्य के माल भाड़ा उद्योग के कर्मचारियों की पहचान करता है

Green Light Day NSW की सरकार और उद्योग के बीच एक सहयोगपूर्ण पहलु है, जिसका लक्ष्य परिवहन और रसद उद्योग में करियर का प्रसार करना है। 500,000 से अधिक लोग - NSW कार्यबल के करीब 14 प्रतिशत कर्मचारी परिवहन और रसद उद्योग में कार्यरत हैं।

कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया Green Light Day रूचिकर विद्यार्थियों को परिवहन और रसद उद्योग करियर में आभ्यासिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

Qube को इस वर्ष Green Light Day में योगदान देने पर गर्व है, और यह ऐसा पूरे सिडनी और क्षेत्रीय NSW में विद्यार्थियों को परिवहन व रसद उद्योग में भूमिकाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करके करता है, इन भूमिकाओं में लॉजिस्टिक्स मैनेजर, फ्रेट लोडर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर तथा साथ ही ट्रेन और ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। इस समारोह को शुक्रवार को Moorebank Logistics Park से लाइव स्ट्रीम किया गया था तथा 500 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें भाग लेने के लिए अपनी रूचि प्रकट की थी।

Green Light Day का समन्वय TAFE NSW, the NSW Department of Education, और Transport for NSW द्वारा किया जाता है।

अवकाश के समय निर्माण-कार्य

क्रिसमस और नववर्ष की अवकाश अवधि के दौरान हमारे कांटेक्टर कम दिनों के लिए काम करेंगे।

काम बुधवार **दिसम्बर 23** को करीब लंच के समय तक चलेगा, दिन के दौरान का काम **दिसम्बर 29-31** तक चलेगा और फिर नियमित निर्माण-कार्य घंटे सोमवार 4 जनवरी से दोबारा शुरू होंगे।

यदि हमारी परियोजना के निर्माण के बारे में आपके कोई सवाल हैं, तो **1800 986 465** पर फोन या **simta@elton.com.au** पर ई-मेल करें।



हमें संपर्क करें

कृपया हमारी वेबसाइट देखें



और अधिक जानकारी के लिए
www.simta.com.au



PO Box 1488
Bondi Junction NSW 2022

विशिष्ट सवालों के लिए, कृपया



1800 986 465 पर फोन करें



या लिखित पूछताछ या फीडबैक
simta@elton.com.au पर भेजें